

फा.सं-ए-22020/1/2005-सीसी

भारत सरकार

सांचियकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

(संगणक केंद्र)

\*\*\*\*\*

पूर्वी खण्ड-10, आर.के. पुरम,  
नई दिल्ली, दिनांक 20.03.2023

कार्यालय आदेश

सांचियकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के दिनांक 19.01.2023 के आदेश संख्या ए-12035/04/2022-एडी.॥॥[E-50727] के अनुसार संगणक केंद्र पूर्व में डीआईआईडी को अपनी मूल भूमिका एवं जिम्मेदारियों के साथ मंत्रालय के संबद्ध कार्यालय के रूप में कार्य जारी रखने का आदेश है। तदनुसार संगणक केंद्र के विविध कार्यों को निष्पादित करने के लिए निम्नलिखित प्रभागों में पुनर्गठित किया गया है:

क्रम	प्रभाग	संभाले(प्रबंधन किए) जाने वाले कार्य
1.	स्थापना और प्रशिक्षण	<ul style="list-style-type: none"> <li>सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के सभी स्थापना संबंधी मामले</li> <li>सभी प्रशिक्षण मामले</li> </ul>
2.	एनालिटिक्स, इनोवेशन एवं स्टेकहोल्डर प्रबंधन	<ul style="list-style-type: none"> <li>डी.आई.लैब</li> <li>संग्रह</li> <li>विभिन्न डेटा सेटों पर विश्लेषिकी</li> <li>पी.एम.यू. सहित विभिन्न उत्पादों का हितधारक प्रबंधन</li> <li>एकीकरण के लिए डेटा सेट विश्लेषण</li> </ul>
3.	एनआईआईपी से संबंधित सभी मुद्दे	<ul style="list-style-type: none"> <li>एन.आई.आई.पी.</li> <li>आई.एम.सी.</li> </ul>
4.	समन्वय और संसद	<ul style="list-style-type: none"> <li>समग्र समन्वय और मंत्रालय सहित अंतर्राष्ट्रीय समन्वय</li> <li>टी.ए.ई.सी.</li> <li>एन.एस.डी.आई. और जी.आई.एस. समन्वय</li> <li>सभी संसद मामले</li> </ul>
5.	परियोजना विकास	<ul style="list-style-type: none"> <li>सभी नए अनुप्रयोग विकास</li> <li>मौजूदा अनुप्रयोगों का उन्नयन और रखरखाव।</li> <li>सुरक्षा पैच की तैनाती</li> </ul>
6.	सामान्य प्रशासन	<ul style="list-style-type: none"> <li>सभी खरीद</li> <li>अन्य सभी सामान्य प्रशासन मामले</li> </ul>
7.	बजट	<ul style="list-style-type: none"> <li>बजट संबंधी सभी मामले</li> <li>नकद अनुभाग मामले</li> <li>लेखा परीक्षा मामले</li> </ul>
8.	संचालन	<ul style="list-style-type: none"> <li>डेटा सेंटर</li> <li>साइबर सुरक्षा</li> <li>ए.एम.सी.</li> <li>एन.आई.सी. क्लाउड प्रबंधन सेवाएं</li> <li>ई-मेल खाता निर्माण</li> <li>ई.एच.आर.एम.एस.</li> <li>प्रत्यायोजित व्यवस्थापक</li> <li>डेटा बेस प्रबंधन</li> </ul>
9.	प्रसार और वेबसाइट	<ul style="list-style-type: none"> <li>सभी प्रकाशनों और उत्पादों का प्रसार</li> <li>जी.डी.पी./एन.ए.डी./आई.आई.पी./सी.पी.आई. आदि सहित।</li> <li>वेबसाइट अद्यतन</li> <li>एस.डी.एम.एक्स.</li> <li>ओ.जी.डी. पोर्टल अपडेशन माइक्रोडाटा आर्काइव्स</li> <li>के.पी.आई. और अन्य डेटा उत्पाद जैसे- ई.सी., ए.एस.आई., आदि।</li> </ul>

10.	लाइब्रेरी / केयरटेकर	<ul style="list-style-type: none"> <li>• लाइब्रेरी के रखरखाव से संबंधित सभी मुद्दे</li> </ul>
11.	हिंदी अनुभाग	<ul style="list-style-type: none"> <li>• राजभाषा से संबंधित सभी मामले</li> </ul>

2. उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से कोई अन्य कार्य संभाग को सौंपा जा सकता है।
3. इसे सक्षम प्राधिकारी, संगणक केन्द्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

*अभिका आनन्द चट्टर्जी*

(अभिका आनन्द चट्टर्जी)  
निदेशक (स्थापना)

1. संगणक केन्द्र के समस्त अधिकारी/कर्मचारी
2. वेब यूनिट - इसे मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
3. सूचना पट्ट।

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. महानिदेशक (सीए), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के प्रधान निजी सचिव
2. अपर महानिदेशक, संगणक केन्द्र के प्रधान निजी सचिव
3. उपमहानिदेशक (आर बी) संगणक केन्द्र के निजी सचिव
4. उपमहानिदेशक (ए बी) संगणक केन्द्र के वैयक्तिक सहायक